

शुक्रवार, 15 अक्टूबर, 2021

प्रिय माता-पिता/अभिभावको और हाल्टन में कक्षा 7-12 के छात्रो,

हाल्टन रीजन पब्लिक हेल्थ परिवारों से दृढ़तापूर्वक आग्रह कर रहा है कि वे **केवल सीमित समय के लिए** पेश किए जा रहे हाल्टन के स्कूल-आधारित टीकाकरण सामुदायिक क्लिनिकों (School-based Immunization Community Clinics) में से एक में अपॉइंटमेंट बुक करके महत्वपूर्ण स्कूल-आधारित वैक्सीनों को पूरा करें। क्लिनिक शामों और सप्ताहांतों को पेशकश किए जा रहे हैं ताकि स्कूल का दिन बाधित न हो।

मौजूदा समय पर, 2004-2009 में पैदा हुए 25,000 से अधिक छात्रों की [हेपेटाइटिस बी](#), [ह्यूमन पैपिलोमावायरस \(एचपीवी\)](#), और [मेनिंगजोकोकल ACYW-135](#) वैक्सीनों की खुराकें, जो आमतौर पर स्कूल में ग्रेड 7 में दी जाती हैं, पर जो महामारी के कारण बाधित हो गई थी, की खुराकें पूरी नहीं हुई हैं। ये टीकाकरण व्यक्तियों और हमारे समुदाय को संक्रामक बीमारी से बचाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और मेनिंगजोकोकल ACYW-135 वैक्सीन छात्रों के लिए **आवश्यक** है (*इम्यूनजेशन अव स्कूल प्यूपिलज़ ऐक्ट* के अनुसार)।

अक्टूबर के अंत में क्लिनिक बंद होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए परिवारों के लिए निराशा से बचने के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करना जरूरी है।

अपॉइंटमेंट बुक करें।


अधिक जानने के लिए आप:

- [ग्रेड 7 स्कूल-आधारित टीकाकरण वेब पेज पर जा सकते हैं](#);
- [हाल्टन का स्कूल-आधारित टीकाकरण तथ्य पत्रक पढ़ सकते हैं](#): (उर्दू, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, पंजाबी, अरबी में भी उपलब्ध);
- [स्कूल-आधारित वैक्सीनें और आपका बच्चा](#) के बारे में हाल्टन पेरेंट्स के ब्लॉग पोस्ट पढ़ सकते हैं; या
- 311 पर कॉल कर सकते हैं।

छात्रों के टीकाकरण रिकॉर्डों को अप-टू-डेट रखने के लिए पब्लिक हेल्थ को [सभी वैक्सीनों की रिपोर्ट करना](#) (COVID-19 टीकों को छोड़कर) महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपने प्राथमिक देखभाल प्रदाता से इन वैक्सीनों को प्राप्त करने की व्यवस्था पहले ही कर ली है, तो [अपने ऑनलाइन टीकाकरण रिकॉर्ड को अपडेट करके](#) या 311 पर कॉल करके पब्लिक हेल्थ को सूचित करना सुनिश्चित करें।

टीकाकरण के बारे में अधिक जानने के लिए, halton.ca/immunize पर जाएँ या 311 पर कॉल करें।

भवदीय,



Dr. Hamidah Meghani (डॉ. हमीदा मेघानी)

Medical Officer of Health (मेडीकल ऑफिसर अव हेल्थ)